

金刚界北方不空成就佛陀罗尼

【修正版】

namo bhagavate vipula-aparimāṇa-puṇya-jñāna-saṁbhāra,
拿牟 帕嘎哇嘚 微布拉-阿巴哩_(弹)吗_(引)拿_(卷)-奔尼_(卷)呀_(合)-积娘_(合、引)拿-三帕_(引)喇_(弹)
dīrgharātram-sarpa-sattvānām-hita-sukham,
滴_(引)勒咖喇_(弹、引)得哪_(合、弹)-萨勒哇-萨得哇_(合、引)囊_(引)-嘿_(黑衣反)达-苏康
krtya-anuṣṭhāna-jñāna-parisamdarśane
格哩_(合、弹)-滴呀_(合)-阿奴施_(卷)他_(合、卷、引)拿-积娘_(合、引)拿-巴哩_(弹)三达勒霞内
aparimāṇa-vicitra-prātiḥārya-paripāka-sarva
阿巴哩_(弹)吗_(引)拿_(卷)-微积得喇_(合、弹)-波喇_(合、弹、引)滴哈_(引)哩呀_(合)-巴哩_(弹)巴_(引)嘎-萨勒哇
sattvāmanuttara-bodhi-cittot pādaḥ saṃsāra sāgara
萨得哇_(合、引)吗奴达喇_(弹)-啵_(布剖反)提-积兜得 巴_(引)达赫 三萨_(引)喇_(弹)萨_(引)嘎喇_(弹)
ava-gāhane, puṇya saṁbhāra-agra-sādhaka-daśa-dig
阿哇-嘎_(引)哈内 奔尼_(卷)呀_(合) 三帕_(引)喇_(弹)-阿格喇_(合、弹)-萨_(引)他嘎-达夏-滴格
vipula-sūddha-jñāna-raśmi-kiraṇaloka-dhātuve amogha
微部拉-修他-积娘_(合、引)拿-喇_(弹)西弥_(合)-唧_(阁衣反)喇_(弹)拿_(卷)楼嘎-塔_(引)度微 阿牟咖
siddhi tathāgatāya arhate samyak-saṁbuddhāya. om, adhimātra
西提 达他_(引)嘎达_(引)呀 阿勒哈嘚 三弥呀_(合)格-三部塔_(引)呀 嗡 阿提吗_(引)得喇_(合、弹)
kāruṇikā pra-nidhāna sarva-abhiprāya-pūraṇe,
嘎_(引)噜_(弹)尼_(卷)嘎_(引) 波喇_(合、弹)-尼_(卷)他_(引)拿 萨勒哇-阿皮波喇_(合、弹、引)呀-布_(引)喇_(弹)内_(卷)
krtya anuṣṭhāna-jñāna mahā-anubhāva
格哩_(合、弹)-滴呀_(合) 阿奴施_(卷)他_(合、卷、引)拿-积娘_(合、引)拿 吗哈_(引)-阿奴帕_(引)哇
adhiṣṭhite, sarva loka-sattvām āśaya buddha dharma karman ca
阿提施_(卷)提_(合、卷)嘚 萨勒哇 楼嘎-萨得旺_(合、引) 阿_(引)霞呀 布塔 塔勒吗 嘎勒曼 加
sattva-krtya dvayā saṃpanne, vajra-karma
萨得哇_(合)-格哩_(合、弹)-滴呀_(合) 得哇_(合)呀_(引) 三班内 哇积喇_(合、弹)-嘎勒吗
vajra-rakṣa vajra-yakṣa vajra-muṣṭi
哇积喇_(合、弹)-喇_(弹)格沙_(合、卷) 哇积喇_(合、弹)-呀格沙_(合、卷) 哇积喇_(合、弹)-目施_(卷)滴_(合、卷)
catur-ārya bodhisattvām mahā-āvedha-vaśa abhaya
加度勒-阿_(引)哩呀_(合) 嚶_(布剖反)提萨得旺_(合、引) 吗哈_(引)-阿_(引)微他-哇霞 阿帕呀
pradāne dr̥ḍha-parākrama rakṣam,
波喇_(合、弹)达_(引)内 得哩_(合、弹)塔_(卷)-巴喇_(弹、引)格喇_(合、弹)吗 喇_(弹)格商_(合、卷)
upa-kārake sarva yoga-ācāra krtya
乌巴-嘎_(引)喇_(弹)给 萨勒哇 由嘎-阿_(引)加_(引)喇_(弹) 格哩_(合、弹)-滴呀_(合)
anuṣṭhāne, sarva vighna māra-praty-arthika
阿奴施_(卷)他_(合、卷、引)内 萨勒哇 微克拿_(合) 吗_(引)喇_(弹)-波喇_(合、弹)滴-阿勒提嘎
pra-mardane svāhā.
波喇_(合、弹)-吗勒达内 斯哇_(合、引)哈_(引)

दम दगदग लघुत मधुरम् दमु छन् मंसर विधात् मद महां लग्न सुते त्रै
महां छन् परमंदलम् मधुरम् लघुर मधुरुपुरुषकम् महामहार अल
मधुरु पदः मंसर मग्न लघुत दुष्ट छन् त्रै कुरुतेष्व दगद मधुय भवि गणग
गद महाम् मधुशुद्धय उं मधुरम् लग्नम् स लग्न मद महामधुरु त्रै
महां छन् मग्न महामहामधुरु मद गुरु मद मधुय दुष्ट दगद मधुय सह त्रै
दुष्ट मधुरु दगद गुरु दगद दुष्ट सुष्टु दगद मग्न महामहामधुरु मग्न महामधुरु द
गद मधुय सह दगद गुरु परम् त्रै त्रै मधुरु गुरु दगद मग्न महामहामधुरु महामहामधुरु
त्रै मधुय सह गुरु दगद मधुरु गुरु दगद मग्न महामहामधुरु महामहामधुरु महामहामधुरु

金刚界北方不空成就佛陀罗尼含义 【修正版】

namo bhagavate【归命世尊】vipula-aparimāṇa【广大无量无边】-puṇyajñāna-saṃbhāra【福智聚】，dīrgha-rātraṁ【于长夜中】sarva-sattvānāṁ【诸众生】hita-sukhaṁ【利益安乐】，kṛtya anuṣṭhāna-jñāna【成所作智】- pari-saṃdarśane-aparimāṇa-vicitra-prātiḥārya paripāka sarva sattvām-【示现无量种种神通教化众生】anuttara-bodhi-cittotpādaḥ【发无上菩提心】saṃsāra sāgara ava-gāhane【度生死海】，puṇya-saṃbhāra-agrasādhaka【成就最胜福德、功德聚】daśa dig-vipula-śuddha-jñāna-raśmikiraṇa-loka-dhātuve【广大清净智光普 照十方世界】amogha-siddhi tathāgatāya【不空成就如来】arhate samyak-saṃbuddhāya【应供、正等正觉者】. Om【赞叹】，adhimātra-kārunikā pra-ṇidhāna sarva-abhiprāyapūraṇe【最上慈悲弘愿满足所求意】，kṛtya anuṣṭhāna-jñāna【成所作智】mahā-anubhāva adhiṣṭhitite【大威神力加持】，sarva loka-sattvām āśaya【一切世间众生所希望的】buddha-dharma-karman【佛法德业】ca【及】 sattva-kṛtya【有情事业】dvayā saṃpanne【两种圆满成就】，vajra-karma vajra-rakṣa vajra-yakṣa vajra-muṣṭi【金刚业，金刚护，金刚夜叉，金刚拳】catur-ārya bodhisattvām【四圣菩萨】mahā-āvedha-vaśa【大行愿力】abhaya-pradāne【施于无畏】dṛḍha-parākrama【坚固勇猛】rakṣam【保护】，upa-kārake【辅助】sarva yoga-ācāra kṛtya-anuṣṭhāne【一切修行者作事】，sarva vighna māra-praty-arthika pra-mardane【一切障碍魔怨摧灭】 svāhā【圆满成就】.

不空成就佛鉴定此罗马梵文本陀罗尼本为 100% 正确。

备注：经书中记载的陀罗尼，有的译经师当年是用唐朝官方语言河洛话(今闽南语)翻译的，有的译经师是用他们本地方言翻译的，而我们现在的官方语言是普通话，如果用普通话去念他们当时翻译的咒语，就会显得不准确。再者，《大藏经》中的咒语错误纰漏甚多，这就出现了一些咒语没有标注合音等符号，一些咒语错了字，一些咒语漏掉字，一些咒语前后顺序错误，一些咒语句子抄漏了。所以还原更正陀罗尼就显得尤为重要。**因为咒语是诸佛菩萨之秘，更准确的陀罗尼能够快速感通佛菩萨。此真言为校对后的正确版本，请用普通话念诵黑色大字部分内容，此部分为真言的梵音近似读音，其中(引)代表前一个字念长音，(合)代表前面下划线汉字组合拼音，(弹)代表前一个字念弹舌音，(卷)代表前一个字念卷舌音，(布剖反)代表前一个字的读音取布的声母 b，剖的韵母 ou，组合拼音念 bou。(黑衣反)代表前一个字的读音取黑的声母 h，衣的韵母 i，组合拼音念 hi。其他标注了(反)型字的均为取第一个字的声母和第二个字的韵母组合拼音。(半)代表前一个字只用念读音的一半。如果觉得括号内的文字过于繁琐，亦可直接念诵括号外的大字部分，相比于错误纰漏甚多的《大藏经》汉语咒语，是不会影响咒力发挥的。**

蔡文端居士罗马梵文网：<https://dharanipitaka.com/>

蔡文端居士梵汉转译网：<http://www.caiwenduan.com/>